



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2011 (अग्रहायण 5, 1933)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2011 (AGRAHAYANA 5, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## योजना आयोग

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 28 अक्तूबर 2011

सं. ए-32013/2/2011-प्रशा.3 (भाग 2)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए) के द्वारा वेतन बैंड पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतन ढाँचे में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने तथा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, डाक विभाग के नियमित निजी सचिव, श्रीमती सुधा शर्मा को योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30.09.2011 के पूर्वाह्न से 31.03.2012 तक अथवा नियमित प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती सुधा शर्मा की प्रधान निजी सचिव ग्रेड पर यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इसी ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 01 नवम्बर 2011

सं. ए-19012/48/2011-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21(एस ओ/एच क्यू)11-यू आई डी ए आई दिनांक 17.10.2011 और रक्षा मंत्रालय (वायु सेना मुख्यालय) के दिनांक 31.10.2011 के पत्र सं. एअर हैडक्वार्टर/22940/डी ई पी/III/पी सी-I के अनुसरण में श्री राम पाल सिंह ने दिनांक 01.11.2011 की पूर्वाह्न से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, में 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

सं. ए-19012/4/2011-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21(एस ओ/एच क्यू)11-यू आई डी ए आई दिनांक 17.10.2011 और रक्षा मंत्रालय

(वायु सेना मुख्यालय) के दिनांक 31.10.2011 के पत्र सं. एअर हेडक्वार्टर/22940/डी ई पी/III/पी सी-I के अनुसरण में श्री आर. बी. सागर ने दिनांक 01.11.2011 की पूर्वाह्न से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, में 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. ए-19012/49/2011-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, के पत्र सं. ए-12013/21(एस ओ/एच क्यू)11-यू आई डी ए आई दिनांक 05.10.2011 और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग) नई दिल्ली के दिनांक 28.10.2011 के कार्यालय आदेश सं 18-5/2009/पी ए (ई)151 के अनुसरण में श्री महावीर सिंह ने दिनांक 02.11.2011 की पूर्वाह्न से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, में 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

सं. ए-19012/50/2011-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, के पत्र सं. ए-12013/21(एस ओ/एच क्यू)11-यू आई डी ए आई दिनांक 25.10.2011 और केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 01.11.2011 के आदेश सं 2/10/2004-स्थापना-09/6420 के अनुसरण में श्री राजीव शर्मा ने दिनांक 02.11.2011 की पूर्वाह्न से मुख्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली, में 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

दिनांक 3 नवम्बर 2011

सं. ए-19012/51/2011-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, के पत्र सं. ए-12013/21(एस ओ/एच क्यू)11-यू आई डी ए आई दिनांक 25.10.2011 और विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षण विकास संस्थान (एन आई एस टी ए डी एस), नई दिल्ली के दिनांक 31.10.2011 के कार्यालय आदेश सं 3(314)/2001-ई-II के अनुसरण में श्री अनिल कुमार ने दिनांक 31.10.2011 की अपराह्न से दिल्ली डाय सेन्टर में 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक,

इनमें से जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. ए-12023/16/1993-प्रशा-III (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्री पी. पी. पारीख, उपाध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 13.08.2010 को दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं। श्री पी. पी. पारीख दिनांक 12 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न को स्वैच्छिक आधार पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12023/12/2000-प्रशा-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1963 के नियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की 62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण के लेखा सदस्य श्री एम. वी. नायर दिनांक 29 सितंबर, 2010 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12023/11/2001-प्रशा-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1963 के नियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की 62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण के लेखा सदस्य श्री एम. एल. गुप्ता दिनांक 22 जनवरी, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12023/6/2004-प्रशा-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1963 के नियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की 62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण के लेखा सदस्य श्री बी. आर. कौशिक दिनांक 13 मार्च, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12023/8/2004-प्रशा-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1963 के नियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की 62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण के लेखा सदस्य श्री डी. सी. अग्रवाल दिनांक 12 जुलाई, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-60011/79/2011-प्रशा-III (वि.का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री टी. रमण, उप पंजीकार, आयकर अपील अधिकरण, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-60011/80/2011-प्रशा-III (वि.का.)--अधिवर्षिकता की आयु होने पर, श्री आर. के. बाउल, उप पंजीकार, आयकर अपील अधिकरण, दिनांक 31 जनवरी, 2011 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 13 अक्तूबर 2011

सं. के-13017/03/2011-यू.एस.1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री आर. वी. ईश्वर, (2) श्रीमती प्रतिभा रानी और (3) श्री सत्यपाल गर्ग को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13018/1/2011-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री नॉग मैकापम कोटीश्वर सिंह, (2) श्री उज्जवल भुइयां, (3) श्री स्वपन चंद्र दास और (4) श्री प्रशांतकुमार शईकिया को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष अवधि के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 अक्तूबर 2011

सं. के-11019/16/2011-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायविद् श्रीमती मंजुला चेल्लूर को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को या उससे पहले केरल उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मदन भीमराव लोकूर का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानान्तरण हो जाने के परिणामस्वरूप, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री आदर्श कुमार गोयल को उस तारीख, जब न्यायविद् श्री मदन भीमराव लोकूर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार छोड़ेंगे, से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/18/2011-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के पश्चात्, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मदन भीमराव लोकूर को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 15 नवम्बर, 2011 को या उससे पहले आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2011

सं. के-11019/3/2011-यू.एस.11(i)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 1 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. के-11019/15/2011-यू.एस.11 के तहत हुए स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप न्यायविद् श्री भास्कर भट्टाचार्य को उस तारीख, जब से उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का कार्यभार ग्रहण किया है, से गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की शक्तियां निष्पादित करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13024/01/2011-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री वैधनाथ चिताम्बरेश, (2) श्री अब्दुल मोहम्मद शफीख, (3) श्री कुंजुपिल्लाई हरिलाल तथा (4) श्री कृष्ण विनोद चन्द्रन को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2011

सं. के-13018/5/2010-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शुभाशिस तलापात्र को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

-----

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

सं. के-13028/01/2011-यू.एस.II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) श्री राकेश कुमार, (2) श्री बीरेन्द्र प्रसाद वर्मा, (3) श्री दिनेश कुमार सिंह, (4) श्री अखिलेश चन्द्र और (5) श्री मुंगेश्वर साहू को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

-----

सं. के-13023/4/2011-यू.एस.II--न्यायविद् श्री अरलि नागराज अमरप्पा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में दिनांक 7 सितम्बर, 2011 अपराह्न से कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

-----

सं. के-13017/05/2011-यू.एस.I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री मुक्ता गुप्ता को, 23 अक्टूबर, 2011 से जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

-----

विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. ए-38013/1/2011-प्रशा. I(वि.वि.)--विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में निजी सचिव, श्री भवानी प्रसाद गोयल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा. I(वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी, श्री के. आर. साजी कुमार को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 2 नवम्बर, 2011 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री के. आर. साजी कुमार को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

3. श्री के. आर. साजी कुमार, उप विधायी परामर्शी की अपर विधायी परामर्शी के पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री एन. आर. बट्टू उप विधायी परामर्शी द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 3594/2011 में दिए जाने वाले निर्णय की शर्त पर है।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

-----

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा. I(वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी, श्री आर. के. पट्टनायक को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 2 नवम्बर, 2011 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री आर. के. पट्टनायक को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

3. श्री आर. के. पट्टनायक, सहायक विधायी परामर्शी की उप विधायी परामर्शी के पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री एन. आर. बट्टू उप विधायी परामर्शी द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 3594/2011 में दिए जाने वाले निर्णय की शर्त पर है।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2011

सं. 12013/1/2009-रा.भा.(का.1)--राष्ट्रपति, श्री बदरी यादव, को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत् क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

में दिनांक 08 सितम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) के पद पर पी.बी. रु. 9,300--34,800/- (ग्रेड पे रु. 4,600/-) के वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राज क्रिशन भोरिया, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. 14015/1/2009-अ.भा.से.-I-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2009क की चयन सूची के लिए (वर्ष 2009क की रिक्तियों पर) राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन आंध्र प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(1) के अंतर्गत 10 जून, 2011 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अधीन 07 सितम्बर, 2011 को अनुमोदित की गई आंध्र प्रदेश के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली चयन सूची को अधिसूचित करती है:--

चयन सूची वर्ष 2009-क (वर्ष 2009-क की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	एल. श्रमण (अनुसूचित जनजाति)	20.06.1962
2.*	डी. वेंकटेश्वर राव (अनुसूचित जनजाति)	24.12.1961
3.#	एम. हरी जवाहरलाल (अनुसूचित जनजाति)	10.06.1965
4.	टी. बाबू राव नायडू (अनुसूचित जनजाति)	20.12.1960

\* क्रम सं. 2 पर दिए गए नाम को चयन सूची में राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र देने के अध्यधीन अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

# क्रम सं. 3 पर दिए गए नाम को चयन सूची में उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही से उनके विमुक्त होने तथा राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र देने के अध्यधीन अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/1/2009-अ.भा.से.-I-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1)

तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन सूची वर्ष 2009-क के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर आंध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें आंध्र प्रदेश संवर्ग में आबंटित करते हैं:--

चयन सूची वर्ष 2009-क (वर्ष 2009-क की रिक्तियों पर)

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री
1.	एल. श्रमण (अनुसूचित जनजाति)
2.	टी. बाबू राव नायडू (अनुसूचित जनजाति)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. 13017/27/2011-अ.भा.से.(1)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब एवं उत्तर प्रदेश सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार सुश्री मनीषा त्रिघटिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पंजाब : 02) का श्री पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उ.प्र. : 02) से विवाह के आधार पर पंजाब से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 13017/12/2007-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं असम, मेघालय की सरकारों तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री येशी घेरिंग, भा.प्र.से. (ए एम : 83) की असम-मेघालय संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (अरुणाचल प्रदेश) में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को 19.02.2011 के बाद एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय : प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2011

सं. डी-III/460/सीएफ-10/2011--राष्ट्रपति, मुंबई में एल सल्व्वाडोर गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्रीमती पल्लवी कनोरिया की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्रीमती पल्लवी कनोरिया के कौंसली क्षेत्राधिकार में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य होगा, जिसका केन्द्र मुंबई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2011

सं. ए-22012/2/2011-पीए-राष्ट्रपति, श्री एस.एन.ए. जैदी, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 76), सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को 01 नवम्बर, 2011 से 3 महीने की अवधि, या पद पर किसी स्थायी पदधारी की नियुक्ति होने, जो भी पहले हो, तक, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

आर. सी. मीना, अवर सचिव

नई दिल्ली-110021, दिनांक 11 नवम्बर 2011

सं. ए-22012/2/2011-पीए (पार्ट-I)--सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार, डॉ. ए. दिदार सिंह, भा.प्र.से. (पीबी : 76) को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, जिन्हें अलग से अधिसूचित किया जाएगा, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से 3 माह की अवधि के लिए, संविदा आधार पर सलाहकार के रूप में पुनर्नियोजित किया जाता है।

2. डॉ. ए. दिदार सिंह, प्रवासी भारतीय दिवस-2012 से संबंधित कार्यकलापों का समन्वय करेंगे।

एम. सत्य बाबू, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. 104 : (फा.सं. ए-19013/35/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सुश्री सुरभि शर्मा, (भारतीय राजस्व सेवा : आयकर) को दिनांक 14.09.2011 (अपराह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 105 : (फा.सं. ए-19011/21/2009-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री सतीश कुमार गोयल, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु.), जो वर्तमान में के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात है, को दिनांक 31.10.2011 (अपराह) से और अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव की स्थिति के साथ, 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 106 : (फा.सं. ए-38014/4/2011-प्रशा.-I)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री महादेव सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2011 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 107 : (फा.सं. ए-19011/20/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री एम. एस. बधान, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 76), को दिनांक 01.11.2011 (पूर्वाह) से और अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव की स्थिति के साथ, 80,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110513, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

सं. ए-32013/8/2011/ग्रुप ए/1545-54--राष्ट्रपति, श्री एम.एम. खंडवाल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी') को समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (ग्रुप 'ए') भर्ती नियमावली, 2006 के अनुसार 01 नवम्बर, 2011 (पूर्वाह) से रु. 8,000-275-13,500/- (संशोधन-पूर्व) (रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन के साथ नया वेतन बैंड-3) के वेतनमान में भारतीय सिविल लेखा सेवा (ग्रुप 'ए') के कनिष्ठ समयमान में, परीक्षा पर, नियुक्त करते हैं।

2. परीक्षा की अवधि 01 नवम्बर, 2011 से प्रभावी होकर दो वर्ष की होगी।

अमिताभ त्रिपाठी, उप महालेखा नियंत्रक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. ए-38011/7/2011-मा.सं.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के श्री बी. बी. महेतानी, निदेशक (सीएसएस) को 31.10.2011 से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2011

सं. ए-32012/2/2005-पी-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/31/2010-सीएस-II(ए)

(पीटी) के अनुसरण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में निम्नलिखित 17 अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को 31.03.2012 तक या नियमित प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक के लिए जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है:--

क्रम सं.	नाम	क्रम सं.	नाम
1.	श्री आर.के. मित्तल	10.	श्री सरूप सिंह
2.	श्री जगजीत सिंह	11.	श्री सुनील बजाज
3.	सुश्री जी. पहिलाजनी	12.	सुश्री सरला सिंह
4.	श्री अनुज कुमार त्रिपाठी	13.	श्री अनिल कुमार सिंह
5.	श्री आर. के. जिंदल	14.	श्री प्रदीप कुमार
6.	श्री एस. के. शर्मा	15.	श्री एन. कृष्णमूर्ति
7.	श्री विश्व विजय	16.	श्री अशोक कुमार गुप्ता
8.	श्री एच. एल. मेशराम	17.	श्री हरीश कुमार लखेड़ा
9.	सुश्री मीना सरोज		

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर 30.09.2011 के बाद लगातार तदर्थ प्रोन्नति तदर्थ प्रकार की है और इससे इन पदों पर अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अक्टूबर 2011

सं. 22012/12/2002-भा.व.से.-II--इस मंत्रालय के दिनांक 16.12.2010 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा भारतीय वन सेवा के हरियाणा संवर्ग में श्री डी. के. सिन्हा के द्वारा दायर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सी डब्ल्यू पी 3315/सीएटी/2007 के अनुपालन में 1990 की चयन सूची के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी :--

चयन सूची वर्ष 1990

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
सर्वश्री		
1.	एस. एस. सिक्रीवाल	20.10.1952
2.	ब्रिज भूषण शर्मा	20.12.1938
3.	मोहिंदर सिंह सेंगवान	16.02.1955
4.	आर. एस. जोशी	07.10.1938
5.	आर. एस. लांबा	23.02.1957

1	2	3
6.	विनोद कुमार झाझरिया	02.01.1955
7.	एस. एस. पंवर	12.06.1938
8.	के. आर. भाटला	12.01.1940

2. भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति), विनियम, 1966 के उक्त विनियम के नियम 9 के अनुसार एसएफएस अधिकारी की पदोन्नति द्वारा भारतीय वन सेवा में नियुक्ति किए गए हैं और वास्तव में भारतीय वन सेवा में नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा में उनकी नियुक्ति की गई है।

3. वर्ष 1990 की चयन सूची के लिए उपर्युक्त अधिकारियों का आबंटन वर्ष और वरिष्ठता भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता विनियमन), नियमावली, 1968 के अनुसरण में विनियमित की जानी है।

4. श्री विनोद कुमार झाझरिया द्वारा दायर माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण चंडीगढ़ के आदेश ओ. ए. सं. 588/एचआर/2011 में दिनांक 03.06.2001 को अभ्यर्थी की भा.व.से. में नियुक्ति से संबंधित दिनांक 21.12.2011 के अभ्यावेदन के निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है।

5. तदनुसार वरिष्ठता/आबंटन वर्ष निर्धारित करने के लिए नियुक्ति की काल्पनिक/मानित तारीख अधिसूचित की जानी है और वर्ष 1990 की चयन सूची के संदर्भ में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति की तारीख 31.12.1990 के रूप में अधिसूचित की जाती है।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. ए-12026/2/2010-डी/डीएफक्यूसी--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर, डॉ. नंदिता साहा को दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 से अगले आदेशों तक केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (संदर्भ मानक) के पद पर 15,600--39,100/- रुपए + 6,600/- रुपए ग्रेड वेतन (ग्रुप 'ए') के वेतनमान में स्थानापन्न क्षमता में पदोन्नत करती है।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

सं. ए-19011/02/2009-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 के आदेश सं. 5/5/2011-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री पी. के. प्रधान, आईएएस (डब्ल्यू बी : 77) को दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 के अपराह्न से स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय में श्री के. चन्द्रमौली आईएस (यूपी : 75) (सेवानिवृत्त) के स्थान पर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. ए-38012/04/2011-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की डॉ. जोतना सोखे, अपर महानिदेशक, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.09.2011 को सरकारी सेवा से निवृत्त हुई।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

सं. ए-19012/10/2011-ईए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के वरिष्ठ समयमान की अधिकारी श्रीमती सुरभि जैन के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नत होने पर उन्हें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतनमान 15,600--39,100/- रुपए + 7,600/- रुपए ग्रेड पे में, 30 सितम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से, संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 24 अक्टूबर 2011

सं. ए-12025/1/2005-ईए--राष्ट्रपति, एक नियमित सहायक श्री आर. आर. जोशी को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग में [8,000--13,500/- रुपए पूर्व संशोधित, पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए पे (संशोधित)] के वेतनमान में 17 अक्टूबर, 2011 पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगे आदेशों से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2011

सं. 38011/06/2011-स्था.-II--कृषि एवं सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री जय प्रकाश का 01 नवम्बर, 2011 को निधन हो गया है।

के. संजयन, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. एफ-40-14/2011--पुस्तकालय--केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, संस्कृति मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (भाषा), डॉ. एन. के. बार को दिनांक 20.09.2011 (पूर्वाह्न) से पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

एन. आर. मिंज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2011

सं. ए-19011/2/2011-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 19 अगस्त, 2011 के आदेश सं. 4/3/2011-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में डॉ. जी. अनुपमा कुमार, आई ए एस (हरियाणा:1991) ने संस्कृति मंत्रालय में, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा) की निजी सचिव के रूप में, निदेशक के स्तर पर 24 अगस्त, 2011 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉ. अनुपमा कुमार के संयुक्त सचिव के पैनल में शामिल किए जाने पर या उक्त मंत्री के पद से हटने पर या निजी सचिव के रूप में उनके कार्य की समाप्ति पर या अगले आदेश होने पर, जो भी पहले हो, उनका निजी सचिव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

वनिता सूद, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

सं. 19020/65/2008-एससीडी-VI--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2011-ई ओ (एसएम-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति श्री श्याम एस. अग्रवाल, आई ए एस (राजस्थान:80) को दिनांक 19.10.2011 (अपराह्न) से भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतन में सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. ए. मुरलीधरन, उप सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. ए-38012/3/2011-स्था.--राष्ट्रपति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री एल. एम. पंत को वार्डक्यू व्यय प्राप्त कर लेने पर उन्हें दिनांक 31.10.2011 को सेवानिवृत्त करते हैं।

मोहम्मद अफजल, उप सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली-3, दिनांक 4 नवम्बर 2011

सं. 15-36/2011-स्थापना--राष्ट्रपति, सुश्री बिंदु अग्निहोत्री, भारतीय



रक्षा लेखा सेवा (1978) को, अपर सचिव के वेतन एवं श्रेणी में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुश्री बिंदु अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 3 नवम्बर 2011 (पूर्वाह्न) को, कार्यालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. निगम, अवर सचिव

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. 19011/11/2007-स्थापना--जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्रीमती आशा पांडे, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2011 के अपराह्न से अधिवर्षिता पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. 19011/2/2007-स्थापना--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27/55/2011-ईओ(एसएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. बचिन्द्र सिंह, आईएएस (यूपी:83) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 27.10.2011 से 31.12.2011 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक आगे बढ़ाते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

#### संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जून 2011

सं. 41/8/2001-प्रशा.-IV--श्री एस. सी. सेनगुप्ता, इंजीनियर, बेतार अनुश्रवण संगठन, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर 31 मई, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

#### सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. 3(11)/2010-कार्मिक-I-राष्ट्रपति, श्री आर. के. मनचन्दा, उप वित्तीय सलाहकार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 28.10.2011 से 8,700/- रुपए प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 37,400/-67,000/- रुपए के पे बैंड-4 में निदेशक स्व-स्थाने/वैयक्तिक आधार पर नियुक्त करते हैं।

विमला शर्मा, उप निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. 5(5)/2011-एबीसीडी--संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 एवं 12-क के अनुसरण में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डीओईसीसी नामक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था का नाम बदलकर "राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" (एनआईईएलआईटी) कर दिया गया है।

2. यह अधिसूचना अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुमोदन से जारी की जा रही है।

सुरेन्द्र जीत, उप निदेशक

#### पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2011

सं. ए-12011/4/2009-आईडब्ल्यूटी--भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री सुधांशु शेखर मिश्रा, आईआरटीएस को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (अर्थात् 19.08.2011) या अगले आदेशों तक 3 वर्षों के लिए रु. 37,400/- + ग्रेड पे रु. 10,000/- के वेतनमान में, सदस्य (कार्गो), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पद पर नियुक्त करती हैं।

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

#### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2011

सं. ए-12025/1/2010-ई-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I(यू) दिनांक 11.08.2011 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की नियमित अनुभाग अधिकारी सुश्री डी. आर. लुईकांग को पे बैंड-3, 15,600/-39,100/- रु. + 6,600/- रु. ग्रेड पे में 01.09.2011 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, अथवा आगामी आदेशों तक जो भी सबसे पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) तदर्थ प्रोन्नति से, ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा।
- (ii) तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को, किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) उन अधिकारियों जिन्होंने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में लागू अनिवार्य स्तर 'घ' प्रशिक्षण नहीं लिया है, को छः महीने की अवधि के भीतर उक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

- (iv) तदर्थ प्रोन्नति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में लंबित ओ ए सं. 3294/2009, श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ में किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
- (v) चूंकि, अनुभाग अधिकारियों की सीएसएल 2003 प्रकाशित करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2011 के कार्यालय ज्ञापन को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अनुभाग अधिकारियों की 2003 की सीएसएल को चुनौती, अनेक आवेदनों के माध्यम से दी गई है, इसलिए 2003 के अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति, उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न न्यायिक मामलों के अध्यधीन होगी।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-11011/2/2011-ई-1--राष्ट्रपति, श्री चरणजीत सिंह बिंद्रा, उच्च श्रेणी लिपिक, वस्त्र मंत्रालय को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड पे में दिनांक 18.10.2011 (अपराह) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक माननीय राज्य मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें अथवा मंत्री जी के पद पर रहने तक, जो भी सबसे पहले हो, सह-अवसानी/प्रतिनियुक्ति आधार पर माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (डॉ. तुषार ए. चौधरी) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए. -12025/01/2011-ई-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2006, 2007 और 2008 के आधार पर परीक्षा कोटा में वर्ष 2006 और 2007 की अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित सहायकों को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 + 4,800/- रु. के ग्रेड पे में, उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीखों से नियमित आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	सीएसएल/रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री संजय कुमार तिवारी	2006/36	28.10.2011 (पूर्वाह)
2.	श्री विजय कुमार पटनायक	2007/59	28.10.2011 (पूर्वाह)

2. इन सहायकों की सीएसएस अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति, निम्नलिखित न्यायिक मामलों में आने वाले निर्णय के अध्यधीन होगी :--

- (i) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1083/2007, एम ए सं. 1171/2007 और एमए/2011 श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ
- (ii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2136/2010, श्री ए. के. नन्दी और अन्य बनाम भारत संघ
- (iii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2469/2010, श्री विकास त्रिपाठी और अन्य बनाम भारत संघ
- (iv) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1253/2009, श्री ए. प्रकाश और अन्य बनाम भारत संघ
- (v) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2584/2011 और एम ए सं. 1987/2011 श्री प्रदीप कुमार मंडल बनाम भारत संघ

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

#### दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. ए-12025/75/2005-ई-1(बी)--अनुभाग अधिकारियों/आशुलिपिकों (ग्रेड 'बी'/समूह-I) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2006, 2007 और 2008 उत्तीर्ण करने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.10.2011 के का.ज्ञा. सं. 4/6/2011-सीएस-II(ए) के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संवर्ग में इनके नामांकन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग की निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'सी' को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड+ 4,800/- रु. के ग्रेड पे में, दिनांक 1.11.2011 (पूर्वाह) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	चयन सूची वर्ष और रैंक सं.
1.	श्रीमती संगीता ठुकराल	2006/34
2.	श्रीमती बिन्दु शर्मा	2007/6

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-38013/3/2011-ई-1(बी)--केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की अधिकारी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्रीमती नीना सरदाना, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.10.2011 (अपराह) से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

## PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 28th October 2011

No. A-32013/02/2011-Adm.III (Vol.II)—Consequent upon her promotion to the Principal Private Secretary (PPS) Grade of CSSS on ad hoc basis and nomination to Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 3/1/2011-CS.II(A), dated the 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Ms. Sudha Sharma, a regular Private Secretary of CSSS cadre of Department of Posts as Principal Private Secretary (PPS) of CSS in Planning Commission on ad hoc basis in the Pay Band PB-3; Rs. 15,600—39,100/- with corresponding Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from 30.09.2011 (FN) for a period upto 31.03.2012 or till regular PPSs become available or untill further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Ms. Sudha Sharma to the grade of PPS is purely on adhoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

## UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st November 2011

No. A-19012/48/11-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21 (SO/HQ)/11-UIDAI dated 17th October 2011 and Ministry of Defence (Air HQ) letter No. Air HQ/22940/Dep/III/PC-I dated 31st October 2011. Shri Ram Pal Singh has assumed the charge of Section Officer in Unique Identification Authority of India in HQ Delhi w.e.f. 01 Nov 2011 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years of until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt)

No. A-19012/47/11-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21 (SO/HQ)/11-UIDAI dated 17th October 2011 and Ministry of Defence (Air HQ) letter No. Air HQ/22940/Dep/III/PC-I dated 31st October 2011. Shri R. B. Sagar has assumed the charge of Section Officer in Unique Identification Authority of India in HQ Delhi w.e.f. 01 Nov 2011 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years of until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt)

The 2nd November 2011

No. A-19012/49/11-UIDAI—In pursuance of UIDAI's letter No. 12013/21 (SO/HQ)/11-UIDAI dated 05th October 2011 and Ministry of Communication and IT (Department of Posts), New Delhi Officer Order No. 18-5/2009/PA(e)/151

dated 28th October 2011. Shri Mahabir Singh has assumed the charge of Section Officer in HQ Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f. 02 Nov 2011 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years of until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt)

No. A-19012/50/11-UIDAI—In pursuance of UIDAI's letter No. 12013/21 (SO/HQ)/11-UIDAI dated 25th October 2011 and Central Water Commission, New Delhi Order No. 2/10/2004-Estt-09/6420 dated 01 November 2011. Shri Rajiv Sharma has assumed the charge of Section Officer in HQ Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f. 02.11.2011 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years of until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt)

The 3rd November 2011

No. A-19012/51/11-UIDAI—In pursuance of UIDAI's letter No. 12013/21 (SO/HQ)/11-UIDAI dated 25th October 2011 and National Institute of Science Technology and Development Studies (NISTADS) New Delhi O. M. No. 3(314)/2001-E-II dated 31st November 2011. Shri Anil Kumar has assumed the charge of Section Officer in Delhi Data Centre w.e.f. 31.10.2011 (AN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation for a period of three years of until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Director (Estt)

## MINISTRY OF LAW &amp; JUSTICE

## (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 31st October 2011

No. A-12023/16/1993-Admn.III (LA)—The President is pleased to accept the notice of voluntary retirement dated 13.08.2010 tendered by Shri P. P. Parikh, Vice President, Income Tax Appellate Tribunal. Shri P. P. Parikh voluntarily retired from Government Service with effect from the forenoon of 12th November, 2010.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-12023/12/2000-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation of 62 years as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri M. V. Nayar, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service with effect from the afternoon of 29th September, 2010.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-12023/11/2001-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation of 62 years as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri M. L. Gusia, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service with effect from the afternoon of 22nd January, 2011.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-12023/6/2004-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation of 62 years as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri B. R. Kaushik, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service with effect from the afternoon of 13th March, 2011.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-12023/8/2004-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation of 62 years as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri D. C. Agarwal, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service with effect from the afternoon of 12th July, 2011.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-60011/79/2011-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation Shri T. Raman, Deputy Registrar, Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.12.2010.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-60011/80/2011-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation Shri R. K. Baul, Deputy Registrar, Income Tax Appellate Tribunal retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2011.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 13th October, 2011

No. K-13017/03/2011-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri R. V. Easwar, (2) Shrimati Pratibha Rani, and (3) Shri Sat Paul Garg, to be Additional Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-13018/1/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Nongmeikapam Kotiswar Singh, (2) Shri Ujjal Bhuyan, (3) Shri Swapan Chandra Das, and (4) Shri Prasanta Kumar Saikia, to be Additional Judges of the Gauhati High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 31st October 2011

No. K-11019/16/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shrimati Manjula Chellur, Judge of the Karnataka High Court, as a Judge of the Kerala High Court and to direct her to assume charge of her office in the Kerala High Court on or before 14th November, 2011.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 1st November 2011

No. K-11019/3/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Adarsh Kumar Goel, seniormost Judge of the Gauhati High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Justice Shri Madan Bhimarao Lokur relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Gauhati High Court consequent upon his transfer as the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-11019/18/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Madan Bimarao Lokur, Chief Justice of the Gauhati High Court, as the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court on or before 15th November, 2011.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 3rd November 2011

No. K-11019/3/2011-US.I (i)—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Bhaskar Bhattacharya to perform the duties of the office of the Chief

Justice of the Gujarat High Court with effect from the date he assumes charge of his office in the Gujarat High Court consequent upon his transfer to the Gujarat High Court vide Notification No. K-11019/15/2011-US.II dated 1st November, 2011.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-13024/01/2011-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Vaidyanathan Chitambaresh, (2) Shri Abdul Mohammed Shaffique, (3) Shri Kunjupillai Harilal, and (4) Shri Krishnan Vinod Chandran, to be Additional Judges of the Kerala High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 11th November 2011

No. K-13018/5/2010-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Subhasis Talapatra, to be an Additional Judge of the Gauhati High Court, for a period of two years with effect from the dates he assumes charge of his office.

SATISH C. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 17th October 2011

No. K-13028/01/2011-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Justice Shri Rakesh Kumar, (2) Justice Shri Birendra Prasad Verma, (3) Justice Shri Dinesh Kumar Singh, (4) Justice Shri Akhilesh Chandra, and (5) Shri Mungeshwar Sahoo, Additional Judges as Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K-13023/4/2011-US.II—Justice Shri Arali Nagaraj Amarappa resigned from the office of the Judge, Karnataka High Court, in pursuance of proviso (a) to clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of 7th September, 2011.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

No. K-13017/05/2011-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Ms. Mukta Gupta, to be an Additional Judge of the Delhi High Court, for a period of two years with effect from 23rd October, 2011.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

## LEGISLATIVE DEPARTMENT

New Delhi, the 31st October 2011

No. A-38013/1/2011-Admn.I (L.D.)—On attaining the age of superannuation, Shri Bhawani Prasad Goyal, Private Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 2011.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

The 2nd November 2011

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.I (L.D.)—The President is pleased to appoint Shri K. R. Sajikumar, Deputy Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/-, in the said Department of the Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 2nd November, 2011 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri K. R. Sajikumar, any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

3. The ad hoc appointment of Shri K. R. Sajikumar, Deputy Legislative Counsel to the post of Additional Legislative Counsel is subject to the outcome of the final decision of O. A. No. 3594/2011 filed by Shri N. R. Battu, Deputy Legislative Counsel in the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

M. R. BEERH, Director (Admin)

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.I (L.D.)—The President is pleased to appoint Shri R. K. Pattanayak, Assistant Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, in the said Department of the Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 2nd November, 2011 and until further orders whichever is earlier.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Pattanayak, any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

3. The ad hoc appointment of Shri R. K. Pattanayak, Assistant Legislative Counsel to the post of Deputy

Legislative Counsel is subject to the outcome of the final decision of O. A. No. 3594/2011 filed by Shri N. R. Battu, Deputy Legislative Counsel in the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

M. R. BEERH, Director (Admin)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 14th November 2011

No. 12013/1/2009-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Shri Badri Yadav as Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language Ministry of Home Affairs, on deputation basis in the Pay Band-2 Rs. 9,300–34,800/- (Grade Pay Rs. 4,600/-) with effect from 08 September, 2011 (F.N.) for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJ KRISHAN BHORIA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 1st November 2011

No. 14015/1/2009-AIS(I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulations, 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service Officers of Andhra Pradesh containing the following names prepared on 10th June, 2011 under Regulation 5(5) and approved on 7th September, 2011, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS of Jammu & Kashmir Cadre under State Civil Service Category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List and 2009A (Against the vacancies of 2009) :—

Select List 2009-A (Against vacancies of 2009)

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Sh.)		
1.	L. Sharman (ST)	20.06.1962
2.*	D. Venkateswara Rao (ST)	24.09.1961
3.#	M. Hari Jawaharlal (ST)	10.06.1965
4.	T. Babu Rao Naidu (ST)	20.12.1960

\*The name of the Officer at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

#The name of the Officer at Sl. No. 3 has been included in the list subject to clearance of disciplinary proceedings and grant of integrity certificate by the State Government.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/1/2009-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation, 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List for 2009A (vacancies of 2009), on probation until further orders and to allocate them to the Andhra Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2009-A (Against vacancies of 2009)

Sl. No.	Name
(S/Sh.)	
1.	L. Sharman (ST)
2.	T. Babu Rao Naidu (ST)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 31st October 2011

No. 13017/27/2011-AIS-(I)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Punjab and Uttar Pradesh, the Central Government hereby transfers Ms. Manisha Trighatia, IAS (PB:02) from Punjab to Uttar Pradesh cadre on the ground of marriage to Shri Pankaj Kumar, IAS (UP:02).

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 13017/12/2007-AIS-(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Assam, Meghalaya and the Ministry of Home Affairs, the Central Govt. hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Shri Yeshi Tsering, IAS (AM:83) from Assam-Meghalaya cadre to AGMUT cadre (Arunachal Pradesh) for a period of one year beyond 19.02.2011.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 9th November 2011

No. D.III/460/CF-10/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mrs. Pallavi Kanoria as Honorary Consul of the Republic of El Salvador in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mrs. Pallavi Kanoria comprises the States of Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra with the seat in Mumbai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

## MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 4th November 2011

No. A-22012/2/2011-PA—The President is pleased to assign the additional charge of the post of Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs, to Shri S. N. A. Zaidi, IAS (UP : 76), Secretary, Ministry of Civil Aviation, for a period of three months with effect from 1st November, 2011 or till the appointment of a regular incumbent to the post, whichever is earlier.

R. C. MEENA, Under Secy.

New Delhi-110021, the 11th November 2011

No. A-22012/2/2011-PA (Part-I)—As approved by the Competent Authority, Dr. A. Didar Singh, IAS (PB : 76) is re-employed as Adviser in the Ministry of Overseas Indian Affairs, on contract basis, w.e.f. 1st November, 2011, for a period of 3 months, on such terms and conditions as may be notified separately.

2. Dr. A Didar Singh would coordinate the activities related to the Pravasi Bharatiya Diwas-2012.

M. SATHYA BABU, Dy. Secy.

## MINISTRY OF FINANCE

## (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 19th October 2011

No. 104 : (F. No. A-19013/35/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Ms. Surubhi Sharma (IRS : IT) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 14.09.2011 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 105 : (F. No. A-19011/35/2009-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Goel, IRS (C&CE),

presently Member, Central Board of Excise and Customs (CBEC) as Chairman, Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 31.10.2011 (AN) and until further orders or until his superannuation, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 106 : (F. No. A-38014/4/2011-Ad.I)—Shri Mahadev Singh, an Officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 31.10.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 107 : (F. No. A-19011/20/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri M. S. Badhan, IRS (C&CE : 76), as Member of the Central Board of Excise and Customs (CBEC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 01.11.2011 (FN) and until further orders or his superannuation, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF EXPENDITURE

## (CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

New Delhi-110513, the 28th October 2011

No. A-32013/8/2011/Gr.A/1545-54—The President is pleased to appoint on probation Shri M. M. Khandwal, Sr. Accounts Officer (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) (New PB-3 with Grade Pay of Rs. 5,400/-) in terms of Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time, with effect from 1st November, 2011 (FN).

2. The period of probation will be for two years w.e.f. 1st November, 2011.

AMITABH TRIPATHI, Dy. Controller General of  
Accounts

## MINISTRY OF CHEMICALS &amp; FERTILIZERS

## (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 2nd November 2011

No. A-38011/7/2011-HR-II—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri B. B. Mehtani, Director (CSS) in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals

& Fertilizers stands retired from Government Service with effect from 31.10.2011

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 27th October 2011

No. A-32012/2/2005-P.II (.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS-II (A) (Pt.), dated 21st October, 2011, the ad hoc appointment of the following 17 Officers in the Grade of Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Environment & Forests is extended upto 31.03.2012 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
1.	Shri R. K. Mittal
2.	Shri Jagjit Singh
3.	Ms. G. Pahilajani
4.	Shri Anuj Kumar Tripathi
5.	Shri R. K. Jindal
6.	Shri S. K. Sharma
7.	Shri Vishav Vijay
8.	Shri H. L. Meshram
9.	Ms. Meena Saroj
10.	Shri Sarup Singh
11.	Shri Sunil Bajaj
12.	Ms. Sarla Singh
13.	Shri Anil Kumar Singh
14.	Shri Pradeep Kumar
15.	Shri N. Krishnamurthy
16.	Shri Ashok Kumar Gupta
17.	Shri Harish Kumar Lakhera

2. The continuation of ad hoc promotions of the above said Officers beyond 30.9.2011 to the post of PPS is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on them to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the Grade of PPS of CSSS.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 27th October 2011

No. 22012/12/2002-IFS-II—Whereas the following officers were appointed against the Select List 1990 in

compliance of Hon'ble High Court order CWP 3315/CAT/2007 filed by Sh. D. K. Sinha in the Haryana Cadre of Indian Forest Service vide this Ministry's Notification of even number dated 16.12.2010:—

#### Select List 1990

S. No.	Name	Date of Birth
	(S/Sh./Smt./Ku.)	
1.	S. S. Sikriwal	20.10.1952
2.	Brij Bhushan Sharma	20.12.1938
3.	Mohinder Singh Sangwan	16.02.1955
4.	R. S. Joshi	07.10.1938
5.	R. S. Lamba	23.02.1957
6.	Vinod Kumar Jhajharia	02.01.1955
7.	S. S. Panwar	12.06.1938
8.	K. R. Bhatla	12.01.1940

2. Whereas the SFS Officers are appointed by promotion to IFS in accordance with IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 in accordance with the Rule 9 of said Regulations and are actually appointed to IFS after issuing of notification for appointment to IFS.

3. Whereas the year of allotment and seniority of the abovementioned officers for the Select List Year 1990 is to be regulated in accordance with IFS (Regulation of Seniority), Rules, 1968.

4. Whereas, Hon'ble CAT Chandigarh order dated 03.06.2011 in OA No. 588/HR/2011, filed by Shri Vinod Kumar Jhajharia, directed for disposal of representation dated 21.12.2011 of the applicant regarding this date of appointment to IFS.

5. Accordingly, the notional/deemed date of appointment for regulating seniority/year of allotment needs to be notified and the date of appointment of aforesaid Officers against the Select List of 1990 is notified as 31.12.1990.

C. M. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd November 2011

No. A-12026/2/2010-D/DFQC—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee duly approved by the Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Dr. Nandita Saha to the post of Senior Scientific Officer (Reference Standard) in Central Drugs Laboratory, Kolkata in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 6,600/- (Group 'A') in an officiating capacity with effect from 18th October, 2011 and until further orders.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.



## DEPARTMENT OF HEALTH &amp; FW

New Delhi, the 18th October 2011

No. A-19011/02/2009-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/5/2011-EO(SM-I) dated 17th October, 2011, the President is pleased to appoint Shri P. K. Pradhan, IAS (WB : 77) as Secretary, Department of Health & Family Welfare in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the afternoon of 17th October, 2011 in the vacancy of Sh. K. Chandramouli, IAS (UP : 75) (Retired).

ANIL KUMAR, Under Secy.

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 8th November 2011

No. A-38012/04/2011-Admn.I—Dr. Jotna Sokhey, Addl. DG of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.09.2011.

R. K. KALRA, Dy. Director (Admn.)

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 14th October 2011

No. A-19012/10/2011-EA.—The President is pleased to appoint Smt. Surbhi Jain, a Senior Time Scale Officer of Indian Economic Service (IES) on her promotion to Junior Administrative Grade of Indian Economic Service (IES), to the post of Joint Director Commission for Agricultural Costs and Prices in the Department of Agriculture and Cooperation in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- Plus Grade Pay Rs. 7,600/-, with effect from the forenoon of 30th September, 2011.

A. K. ARORA, Under Secy.

The 24th October 2011

No. A-12025/1/2005-EA.—The President is pleased to appoint Shri R. R. Joshi, a regular Assistant to the post of Administrative Officer in the Pay Scale of [Rs. 8,000—13,500/- (pre-revised), PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay 5,400/- (revised)] in the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis for a period of three years

with effect from the forenoon of the 17th October, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 2011

No. 38011/06/2011-E.II—Shri Jai Prakash, Assistant Director (OL) in the Department of Agriculture & Cooperation has expired on 1st November, 2011.

K. SANJAYAN, Under Secy.

## MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110011, the 31st October 2011

No. F.40-14/2011-Lib—Dr. N. K. Bar, Assistant Library & Information Officer (Language) in the Central Secretariat Library, Ministry of Culture has been promoted to the post of Library & Information Officer with effect from 20.09.2011 (F.N.).

N. R. MINZ, Under Secy.

New Delhi, the 6th September 2011

No. A-19011/2/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's (Office of the Establishment Officer) Order No. 4/3/2011-EO (MM-I) dated 19th August, 2011, Dr. G. Anupama Kumar, IAS HY : 1991) has assumed the charge of Private Secretary to the Ministry of HUPA & Minister of Culture (Kumari Selja) in the Ministry of Culture at the level of Director in the forenoon of 24th August, 2011. She will cease to be Private Secretary on getting empanelled as Joint Secretary or on co-terminus basis with the Ministry or till she ceases to function as Private Secretary or until further orders, whichever event occurs the earliest.

VANITA SOOD, Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE &amp; EMPOWERMENT

New Delhi, the 24th October 2011

No. 19020/65/2008-SCD-VI—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/10/2011-EO(SM. 1) dated 14th October, 2011, the President is pleased to appoint Shri Shyam S. Agarwal, IAS (RJ : 80) as Secretary, National Commission for Scheduled Castes, New Delhi in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from 19.10.2011 (AN).

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 8th November 2011

No. A-38012/3/2011-Estt.—The President is pleased to retire Shri L. M. Pant, Senior PPS, Ministry of Minority Affairs on 31.10.2011 on attaining the age of superannuation.

MOHD. AFZAL, Dy. Secy.

## NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Delhi-110003, the 4th November 2011

No. 15—36/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Bindu Agnihotri, IDAS (1978) as Secretary in the National Commission for Minorities in the rank and pay of Additional Secretary.

2. Ms. Bindu Agnihotri has assumed charge of the office of the Secretary, National Commission for Minorities w.e.f. 3rd November, 2011 (Forenoon).

A. K. NIGAM, Under Secy.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st October 2011

No. 19011/11/2007-Estt.—On attaining the age of superannuation Smt. Asha Pandey, Section Officer (ad hoc) in the Ministry of Tribal Affairs retires from the Government Service on superannuation with effect from the afternoon of 31.10.2011.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 2nd November 2011

No. 19011/2/2007-Estt.—In pursuance of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training's OM No. 27/55/2011-EO(SM.I) dated 20.10.2011, the President is pleased to extend the Central deputation tenure of Dr. Bachittar Singh, IAS (UP : 83) Joint Secratry in the Ministry of Tribal Affairs for a period beyond 27.10.2011 and upto 31.12.2011 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 20th June 2011

No. 41/8/2001-Admn.IV—On attaining the age of superannuation Shri S. C. Sengupta, Engineer, Wireless

Monitoring Organisation, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & I.T. retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2011.

NIRMALA DEV, Under Secy.

## DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 31st October 2011

No. 3(11)/2010-Pers.I—The President is pleased to appoint Shir Raj Kumar Manchanda, Dy. Financial Adviser as Director on in-situ/personal basis in the Department of Information Technology in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- p.m. with effect from 28.10.2011.

VIMLA SHARMA, Dy. Dir.

New Delhi-110003, the 8th November 2011

No. 5(5)/2011-ABCD—In pursuance of Section 12 & 12-A of the Societies Registration Act of 1860, the name of the DOEACC Society, an Autonomous Scientific Society of Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology has been changed to "National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)".

2. This issues with the approval of Additional Secretary, Department of Information Technology.

SURENDER JEET, Dy. Dir.

## MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 11th November 2011

No. A-12011/4/2009-IWT—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby Appoints Shri Sudhanshu Sekhara Mishra, IRTS to the post of Member (Cargo), Inland Waterways Authority of India in the Scale of Pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of 3 years from the date of joining (i.e. 19.08.2011) or until further orders.

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT &amp; HIGHWAYS

New Delhi, the 14th September 2011

No. A-12025/1/2010-E-I—In pursuance of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel &

Training's Order No. 5/7/2011-CS.I(U)) dated 11.08.2011, the President is pleased to appoint Ms. D. R. Luikang, a regular Section Officer of CSS as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- Grade Pay on ad hoc basis w.e.f. 01.09.2011 (F.N.) for a period upto 31.05.2012 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. Her appointment as Under Secretary on ad hoc basis is subject to the following terms and conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The Officers who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS will have to undergo the aforesaid training within a period of six months;
- (iv) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009-titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi;
- (v) As the CSL of Section Officers of 2003 is under challenge in several applications pending before CAT, New Delhi as brought out in Department of Personnel & Training's O.M. dated 30.06.2011, publishing the CSL 2003 of SOs, the ad hoc promotion in so far as SOs of 2003 to the grade of US is concerned is subject to the various Court cases mentioned in the said O.M.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 18th October 2011

No. A-11011/2/2011-E-I—The President is pleased to appoint Shri Charanjeet Singh Bindra, UDC in the Ministry of Textile as First Personal Assistant to the Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Dr. Tushar A. Chaudhary) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- Grade Pay on Co-terminus/deputation basis w.e.f. 18.10.2011 (A.N.) until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever is the earliest.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 2nd November 2011

No. A-12025/01/2011-E-I—Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2006 & 2007 as mentioned against their names against Examination Quota on the basis of Combined Limited

Departmental Competitive Examination, 2006, 2007 & 2008 held by Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following Assistants of CSS in the Ministry of Road Transport & Highways as Section Officers (CSS) on regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. the dates mentioned below :—

Sl. No.	Name	CSL/Rank No.	Date of Appointment
1.	Shri Sanjay Kumar Tiwari	2006/36	28.10.2011 (FN)
2.	Shri Vijay Kumar Patnayak	2007/59	28.10.2011 (FN)

2. The appointments of these Assistants to the grade of S.O. of CSS shall be subject to the outcome of following Court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI in CAT, New Delhi.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 8th November 2011

No. A-12025/75/2005-E-I(B)—Consequent upon their qualifying the Section Officer's/ Stenographers (Gr. 'B'/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination 2006, 2007 & 2008 and their nomination to the cadre of Ministry of Road Transport & Highways vide DoP&T's OM No. 4/6/2011-CS.II(A) dated 25.10.2011, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Labour and Ministry of Human Resource Development as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f.

01.11.2011 (F.N.) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- :—

Sl. No.	Name	Select List Year & Rank No.
1.	Smt. Sangeeta Thukral	2006/34
2.	Smt. Bindu Sharma	2007/6

H. R. MEENA, Under Secy.

No. A-38013/3/2011-E-I(B)—Smt. Neena Sardana, an Officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on superannuation w.e.f. 31.10.2011 (A.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.